

EMA INDIA LIMITED

CIN:L27201UP1971PLC003408

Mfrs. of Induction Heating and Honing Machines & Accessories

February 15, 2022

To, Manager-CRD, BSE Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")- Newspaper Publication

Re: EMA India Limited; Scrip Code: 522027

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published in 'Financial Express' English Edition and 'Rashtriya Sahara' Hindi Edition on 15th February, 2022 informing about the Postal Ballot Notice and remote e-voting information for increase in the Authorized Share Capital of the Company and resultant alteration in the Capital clause of the Memorandum of Association and clause 5 of the Articles of Association of the Company.

The said Newspaper Advertisement has also been uploaded on our corporate website i.e. http://www.eiltd.info

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully

For EMA India Limited

Namita Sabharwal (Company Secretary)

annal

M. No.: A35411

Enc.: As Above

Regd. Office & Postal Address EMA INDIA LTD. C-37, Panki Industrial Area P.O. Udyog Nagar Kanpur-208 022 INDIA Honing Machine Division

GEHRING INDIA
(A Div. of Ema India Ltd.)
Vill. Maharajpur. 19th Km. Stone
P.O. Tantiyaganj, Mandhana
Kanpur Dehat-209 203

EMA

Tel. : +91-512-691210-11-12-13 Fax : +91-512-691214

GEHRING Tel. : +91-5112-20105, 20107 Fax : +91-5112-20106

E-mail: emain@lw1.vsnl.net in

SHARPLINE BROADCAST LIMITED FINANCIAL EXPRESS

Date: 14.02.2022

(FORMERLY KNOWN AS ARCHIT HOLDINGS AND CREDITS LIMITED) CIN:L22100DL1990PLC039464 Regd. Off.: 37th Second Floor, Rani Jhansi Road Motia khan, Pahargani, Delhi -110055 Email ID: sharplinebroadcastlimited@gmail.com Website: www.sharplinebroadcast.in Statement of Un-audited Results for the Quarter and Nine Month Ended 31.12.2021

Particulars		Quarter Ended (31/12/2021)	Year to date (31/12/2021)	in the previous
(Re	rfer Notes Below)	(Unudited)	(Unaudited)	year (31/12/2020) (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	380.91	665.09	181.70
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	70.70	20.12	(3.34)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items*)	70.70	20.12	(3.34)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	52.91	0.87	(3.34)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit] (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	52.91	0.87	(3.34)
6.	Equity Share Capital	1,150.00	1,150.00	1,150.00
7.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	0.46 0.46	0.01 0.01	(0.03) (0.03)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Residues of the Stock Exchange(s) and the listed entity. The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.

Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in

accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable

For Sharpline Broadcast Limited

Name: Sanjeev Kumar Jha Date: 14/02/2022 Designation: Whole Time Director DIN: 02840583

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing

Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrower / có-borrewers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL-HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL-HFL" and no further step shall be taken by "IIFL-HFL" for transfer or sale of the secured assets

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Rule 8-(1)

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	(immovable property)	Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Possession
Kaushik & Mrs. Santosh Devi (Prospect No. 845336)	All that piece and parcel of: House Situated At, Sai Puram, admeasuring 104 sq. ft., Vpo Kabirpur, Sonipat, Pincode:131001, Haryana, India	Lakh Forty Seven Thousand Four Hundred Eighty Only)	10 0ul 2021	12-Feb-2022
Mrs. Manju, Mr. Raj Kumar and Mrs. Roshni	All that piece and parcel of:Flat No. T-61 In Tower-C, area measuring 44.91 sq. mtrs., Singhal Dream City, Mauza-Ladamda, Agra, Pincode:282007, Uttar Pradesh.	Eight Lakh Twenty Three		12-Feb-2022
Main Shivaji Marg, I	ase contact to Authorised Officer at Bi Najafgarh Road, Beside Jaguar Sho lot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gi	owroom,Moti Nagar, New		

Date: 15-February-2022 Place: Delhi/NCR

DEMAND NOTICE Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, again to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts in herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notices and security offered towards repayment of loan amount are as under

Demand Notice Date and Amount

Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited

Description of secured asset

Mr. Mukesh Kumar, Mr. Dharam Singh, Mrs. Neeta Thakur (Prospect No. 864178)	Four Thousand Six Hundred Seventeen Only)	All that piece and parcel of the property being: Plot No 45, Admeasuring 112.5 Sq. Yds., Portion Kh No 26/20 And 27/16, Gf Village Shakur, Abadi Mahindra Park-A Delhi-110034, Delhi, India
Mr. Ashok Kumar Bidhudi, Mrs. Rekha(Prospect No. 878620)	11-February-2022 Rs. 19,28,111/- (Rupees Nineteen Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Eleven Only)	All that piece and parcel of the property being: Part Of Commercial Plot No. A-23, area admeasuring 88.16 Sq. Mtrs., Transport Nagar / Yatayat Nagar, Mauja Palikhera, Mathura, 281001, Uttar Pradesh, India
assets under Section	13(4) of the said Act. and the applicable Ru	d, IIFL HFL may proceed against the above secured les, entirely at the risks, costs and consequences of Officer at Branch Office:- Plot No. 30/30E, Upper

Date: 15-February-2022 Place: Delhi/NCR Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited

Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi Corporate Office

SMC CREDITS LIMITED

24, Ashoka Chambers, 5-B, Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 CIN: L65910DL1992PLC049566, Website www.smccredits.com

_	-				AW 65		(Rs. in Lacs)
SI	Part Waller of Co.		uarter Ende				Year Ended
No.	Particulars				31.12.2021 Unaudited		31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations (net)	211.74	79.03	241.98	437.5	418.04	516.33
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extra ordinary items)	159.6	36.85	197.91	297.16	250.48	299.10
3	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extra ordinary items)	133.82	32.63	159.14	242.16	210.48	449.68
4	Total comprehensive Income	47051.82	7019.86	0	54071.68	0	23331.97
5	Paid up Equity Share Capital (Face value of Share Rs. 10/- each)	1002.22	1002.22	1002.22	1002.22	1002.22	1002.22
6	Reserves (excluding Revalution Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year						24759.92
7	Earning per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)	2000	2000	Al Assess	0.075.0		950V.55
	Basic in ₹ per share	1.34	0.33	1.59	2.42	2.10	4.49
	Diluted in ₹ per share	1.34	0.33	1.59	2.42	2.10	4.49

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the said quarter and nine months end are available on the stock exchange www.bseindia.com The above result are review by the audit committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 14th February, 2022 For SMC Credits Limited

Rajesh Goenka Place: New Delhi Chairman & Executive Director

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED

Dated: 14th February, 2022 DIN:00298227

CIN: L74999DL1982PLC014411 Registered Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre,

New Delhi-110015, **Ph**: 011-45090162 **E-mail Id:** jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, **Website:** www.jtel.co.in

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

	OR THE GOARTER AND RINE MONTH			100
	<u> </u>	,	Rs. in Thousand	
SI.		Current	Previous	Previous Year and ad
No.		Quarter ended		Year ended
	PARTICULARS	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
		(Unaudited / Reviewed)	(Unaudited / Reviewed)	(Audited)
1	Total Income from operations	4,088.18	7,579.28	38,670.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1,347.64	5,219.21	29,531.73
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	1,347.64	5,219.21	29,531.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	996.70	4,890.53	26,699.66
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)	1,013.93	4,861.81	26,768.61
6	Equity Share Capital	50,816.40	50,816.40	50,816.40
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	99,129.64	72,360.69	99,129.64
8	Securities Premium Account	-	-	_
9	Net Worth (Total of Assets)	1,27,993.17	93,408.66	1,27,993.17
10	Paid Up Debt Capital / Outstanding Debt	- 1	-	_
11	Out Standing Redeemable Preference Shares	4 -1	-	_
12	Debt Equity Ratio	-		-
13	Earning Per Shares (FV of Rs 10/- Each) for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	0.20 0.20	0.96 0.96	5.25 5.25
14	Capital Redemption Reserve	-		-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-

Notes:

16 Debt Service Coverage Ratio 17 Interest Service Coverage Ratio

The Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2021 have been approved by the Board of Director in their meeting held on February 14, 2022 after being reviewed and recommended by the Audit Committee. The Statutory Auditors have reviewed these financial results pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. Segment reporting as defined in Accounting Standard-17 is not applicable as the Company is engaged in

NBFC Business The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Nine Months Un-Audited Financial Results - as

per IND AS compliant filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and Nine Months Un-Audited Financial Results as on 31.12.2021 are available on Company's website, www.jtel.co.in and Stock Exchange website, www.msei.in For, JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED

> (Praveen Kumar Goel) Director

Place : New Delhi

Dated: 14th February, 2022

ASSAM ENTRADE LIMITED CIN NO. L20219WB1985PLC096557

Regd off: 16 TARA CHAND DUTTA STREET, 2ND FLOOR, KOLKATA-700073 Website: www.assamentrade.com Extract of financial results for the quarter and year to date ended 31st December, 2021

							A BANK BANK AND				
No.	Particulars	For the quarter ended Nine Month er		nth ended	h ended Year ended		For the quarter ended		Nine Month ended		
NO.	Faiticulais		31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	terrunitation principal teaching decision terra-	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	158.103	123.284	392.605	360.066	564.214	158.246	123.421	393.035	360.474	564.814
2	Net profit for the period before tax	14.864	56.421	166.002	215.027	211.814	14.971	56,481	166.348	215.316	211.927
3	Net profit for the period after tax	11.054	40.722	124.207	144.953	141,127	11.152	40.770	124.483	145.170	141.214
4	Total Comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	11.054	40.722	124.207	144.953	141.127	11.152	40.770	124.483	145.170	141.214
5	Equity share capital	143.979	143.979	143.979	143.979	143.979	143.979	143.979	143.979	143.979	143.979
6	Other equity					5261.952					5846.629
7	Earnings per share (EPS) of Rs 10/- each Basic and diluted EPS (Rs per share) (not annualised excluding year end)	0.768	2.828	8.627	10.068	9.802	0.775	2.832	8.646	10.083	9.808

The above is an extract of the detailed format of quarter end financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and the Company (www.assamentrade.com)

For Assam Entrade Limited Sd/- (Nishant Gupta) Place: Kanpur

Managing Director DIN: 00326317

Consolidated Results

Consolidated

(Rs in lacs)

FORTUNE INTERNATIONAL LTD CIN: L52324DL1981PLC012033

Regd. Office: G-4, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028 E- Mail ID for investors: rekha.srivastava2016@gmail.com Tel: 011-25774212-214, 25771629

Extract of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter/Nine Months ended on 31st December, 2021

Standalone Results

×	Statistical Nosalis					uito	- 1			
Particulars	Quarter	Quarter	Nine Months	Nine Months	Year	Quarter	Quarter	Nine Months	Nine Months	Year
r artiourus	ended 31.12.2021 (Unaudited)	ended 30.09.2021 (Unaudited)	ended 31.12.2021 (Unaudited)	ended 31.12.2020 (Unaudited)	ended 31.03.2021 (Audited)	ended 31.12.2021 (Unaudited)	ended 30.09.2021 (Unaudited)	ended 31.12.2021 (Unaudited)	ended 31.12.2020 (Unaudited)	ended 31.03.202 (Audited)
Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period	41.21	73.45	158.04	59.40	382.18	41.21	73.45	158.04	59.40	382.18
(before tax, exceptional and/or extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period	35.67	241.38	297.10	42.10	340.24	35.67	61.63	117.35	42.10	340.24
before tax (after exceptional and/or extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period offer tax (after exceptional and/or	35.67	241.38	297.10	42.10	340.24	35.67	61.63	117.35	42.10	340.24
after tax (after exceptional and/or extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)	35.67	204.14	259.85	42.10	340.24	35.67	24.39	80.10	42.10	340.24
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	35.67	204.14	259.85	42.10	340.24	31.25	153.52	450.09	623.44	1137.8
Paid up Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance	704.00	704.00	704.00	704.00			704.00	704.00	704.00	
Sheet of previous year) Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-	-716.81	-	-		-	1334.48
Basic:	0.51	2.90	3.69	0.60			2.18	6.39	8.86	16.0
Dilutod	0.54	2.00	2.60	0.60	4 02	0.44	2 40	6.20	0.00	10.0

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website: http://www.bseindia.com and also on the Company's website: http://www.fortuneinternational.in

For FORTUNE INTERNATIONAL LTD

(Nivedan Bharadwai) **Managing Director** (DIN: 00040191)

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

Regd. Office: 304, Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi-Rohtak Road, Delhi-110087 CIN: L74899DL1995PLC064215 Tel. No.: +91-11-46200400, Fax No.: 011-46200444 Website: www.mohindra.asia, Email id: csnidhipathak@mohindra.asia

Extract of un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31-12-2021

							(Rs. In Lakhs
SR.	PARTICULARS	Q	UARTER ENDE	D	NINE MON	THS ENDED	YEAR ENDED
		12/31/2021	9/30/2021	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2020	3/31/2021
	Ī	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
1.	Total Revenue from Operations	3624.87	3310.03	2783.82	9318.86	7070.73	10601.63
2.	Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	403.87	455.40	397.40	1052.38	946.87	1380.53
3.	Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items#)	403.87	455.40	397.40	1052.38	946.87	1380.53
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items#)	301.94	340.48	255.60	788.92	712.17	1038.06
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax and Other Comprehensive Income (After Tax)]	297.17	337.28	294.13	777.68	734.69	1025.60
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each fully paid up)	535.68	535.68	535.68	535.68	535.68	535.68
7.	Earning Per Share*(face value of Rs. 10/- each) (for continuing operations)						
1	1. Basic (before & after extraordinary items)	5.64	6.36	4.77	14.73	13.29	19.38
	2. Diluted (before & after extraordinary items)	5.64	6.36	4.77	14.73	13.29	19.38
	*EPS not annualized except for the year ended 31st March 2021						

Notes:-

Date: 14.02.2022

Place: New Delhi

Date: 14.02.2022

1. The above unaudited financial results were reviewed & recommended by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on February 14, 2022. The Statutory Auditors have carried out a limited review for the guarter & nine months ended December 31, 2021. and have issued an unmodifed report thereon.

2. The above is an extract of the detailed format of the quarterly & nine months ended un-audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulation, 2015. The full format of the un-audited financial results are available on the Stock Exchange's website i.e. www.msei.in and also on the company's website at www.mohindra.asia.

For & on behalf of the Board of Directors

Deepak Arneja (Chairman cum Managing Director & CEO)

Place: New Delhi

LANDMARK

Landmark Property Development Company Limited

REGD. OFFICE: 11 TH FLOOR, NARAIN MANZIL, 23, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110 001 Phone: (011) 43621200 FAX: (011) 41501333

CIN - L13100DL1976PLC188942 Email: info@landmarkproperty.in Website: www.landmarkproperty.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31/12/2021 (Unaudited)	Quarter ended 30/09/2021 (Unaudited)	Quarter ended 31/12/2020 (Unaudited)	Nine months ended 31/12/2021 (Unaudited)	Nine months ended 31/12/2020 (Unaudited)	Year Ended 31st March 2021 (Audited)
Total income	21.65	57.75	55.92	101.56	132.16	187.61
Net Profit / (Loss) for the period (before tax & Exceptional items)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.08
Total Comprehevnsive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax and other Comprehensive income (after Tax)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.12
Equity Share Capital	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						4,861.66
Earning Per Share (Face Value of Re 1 each) (not annualised) Basic : Diluted :	0.01	0.01 0.01	0.01	0.02	0.02 0.02	0.03

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Financial Results filed with the Stock

exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015, as amended. The full format of the Quarterly and nine month ended Financial Results is available on the stock exchanges websites. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.landmarkproperty.in The above results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and

approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14, 2022. The Statutory Auditors have

expressed an unmodified opinion on the aforesaid results. The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in the companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act' 2013 (The accounting principal generally accepted in India)

For Landmark Property Development Company Limited

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

CIN- L74899DL1993PLC053034

Regd Office: STATESMAN HOUSE, 148, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI 110001 E-Mail: isl@bol.net.in, Website: www.internationalsecuritiesltd.com Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results (Rs. In Lakhs for the Quarter and Nine months ended December 31, 2021

PARTICULARS		Quarte	r Ended	Nine mon	Year Ended	
		31.12.2021 Unaudited	31.12.2020 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	4.06	266.86	(103.64)	246.85	240.80
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	11.81	250.33	(157.99)	153.35	73.08
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	11.81	250.33	(157.99)	153.35	73.08
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	11.81	250.33	(157.99)	153,35	26.18
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	11.81	250.33	(157.99)	153.35	26.18
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balhace Sheet of Previous Year	209.85	495.02	209.85	495.02	367.85
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (Not Annualised) [refer note c) below] Basic : Diluted :	0.39	8.34 8.34	(5.26) (5.26)	5.11 5.11	0.87 0.87

on December 31, 2021 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Quarterly/ Yearly financial results are available on Company's Websites www.internationalsecuritiesItd.com and on the website of the Metropolitan Stock Exchanges. The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2022 and had undergone a 'Limited Review' by the

Statutory Auditors of the Company. The standalone financial results have been prepared it accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter. On behalf of the Board of Directors Place: New Delhi

Dated: February 14, 2022

Rajeev Kumar Gupta DIN No.: 00039399

EMA INDIA LIMITED CIN: L27201UP1971PLC003408

Registered Office: C-37 Panki Industrial Area P O Udyog Nagar Kanpur Uttar Pradesh - 208022, Telephone No.: 91-512-2691210-11, E-mail: emaindia.cs@gmail.com, Website: www.eiltd.info NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E- VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable

provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("Rules"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020 General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the approval of the members of EMA India Limited ("Company") is being sought to transact the business as set out in the Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement, which has been dispatched through electronic mode only on Monday, February 14, 2022 to all Members of the Company, who have egistered their e-mail address with the Company/ RTA or with their Depositories as on Friday, February 04, 2022 ("Cut-off date"). In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate

Affairs, Members can vote only through the "remote e-voting" process. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off-date i.e. Friday, February

The Company has engaged the services of National Securities Depository

Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility to all members. Voting

through Postal Ballot by electronic means shall commence on Friday, February

 2022 at 09:00 A.M. IST and shall end on Saturday, March 19, 2022 at 05:00 P.M. IST. Voting shall not be allowed after 05:00 P.M. IST on Saturday, March 19, Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares with the Depository through Depository

Participants. The instructions on the process of remote e-voting and manner in which members can cast their vote through remote e-voting are provided in the Notice of Postal Ballot. The Notice of Postal Ballot are also available on the Company's website at www.eiltd.info and on the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at

www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The facility for appointment of proxy will not be available. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit,

Practising Company Secretary as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process only through the remote e-voting process in a fair and The results of the Postal Ballot through remote e-voting (along with the Scrutinizer report) will be announced by the Whole-Time Director of the

Company or any person authorised by her on or before March 21, 2022 at the Registered Office of the Company and will also be displayed on the website of the Company, besides being communicated to BSE Limited In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020

990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in For EMA India Limited Date: February 14, 2022 Namita Sabharwal

Place: Kanpur Company Secretary & Compliance Officer

R R Financial Consultants Limited

CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email id:-cs@rrfcl.com Website:-www.rrfcl.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Nine Month ended and Third Quarter Ended on 31st December, 2021 (7 in lacs Consolidated

Quarter

ended

Quarter

ended

Nine Month

ended

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

(unaudited) (unaudited)

			2.50
Total income from operations (net)	318.95	1067.14	328.47
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	3.02	55.20	6.21
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.02	55.20	6.21
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.02	50.20	6.21
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] and Minority Interest	(4.09)	46.92	2.83
Equity Share Capital	1106.94	1106.94	1106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year			
Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	(.04) (.04)	0.42 0.42	0.24 0.24

Key Standalone Unaudited Financial information for the Nine Month Ended and Third Quarter Ended on 31st December, 2021 (₹ in lacs) Standalone

Particulars	Quarter ended 31.12.2021 (unaudited)	Nine Month ended 31.12.2021 (unaudited)	ended 31.12.2020
Total income from operations (net)	9.59	52.80	7.99
Profit before tax	(0.68)	0.64	0.21
Profit after tax	(0.68)	0.60	0.21
Notes:			

Particulars

Nine Month Ended and Third Quarter ended December 31st, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the

principles of companies (Indian accounting standards) rules, 2015 (IND AS), as amended by the companies (Indian accounting standards) (Amended rules), 2016 prescribed under section 133 of company act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever considered

necessary. The entire operation of the company relates to only one reportable segment, therefore segment reporting by Ind AS 108 is not required. For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Raiat Prasad

Place: New Delhi Managing Director Date: 14.02.2022 DIN: 00062612

Sd/-Gaurav Dalmia (Chairperson and Managing Director)

financiale

Place: New Delhi Date: 14th February, 2022 DIN: 00021153

संक्षिप्त खबरें

बाराबंकी पुलिस ने छापेमारी कर कुछ युवकों को उठाया शुक्लागंज । बारावंकी सीओ के नेतृत्व में बारावंकी पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से नगर के कई पुलिस के सहयाग से नगर के कई इस्लाकों में छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी से लोगों में इड़कंप मचा रहा। कार्रवाई के दौरान गैर जनपद की पुलिस ने नगर से कुछ युवकों को उठाया। इस बारे में गंगाधाट कोतवाली प्रभारी जेबी पांडेय का कहना था कि नारा जना 1134 नग नगर से कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उनका कहना था कि फाइबर केबिल से जड़े बड़े मामले में वांछितों की तलाश को लेकर कई जगह दबिश दी गई है।

पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर किया अधमरा

घाटमपुर। बीती देर रात शादी समारोह से वापस लौटे पति को पत्नी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। आपा खोए पित ने प्रेमी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमी छत के रास्ते भागने में सफल रहा। नाराज पति ने पत्नी के सिर पर पाइप से हमला किट जिसके चलते पत्नी बेहोश होकर गिर गई। पत्नी को मरा समझकर पति थाने गई। पता का मेरा स्मझकर पात यान पहुंचा और पुलिस को आपवीती बताई। मौके पर पहुंची पुलिस को पत्नी कराहर्त मिली, पुलिस ने रात में ही सीएचसी घाटमपुर में घायल पत्नी को भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत चिंताजनक होने पर उसे दलाउ हालत विताजनक हान पर उस इलाज के लिए हैलट कानपुर भेजा गया है। वहीं पति पुलिस हिरासत में है। पुलिस का कहना है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

आरटीएसई क्लब को आईसीसी ने एक विकेट से हराया

शुक्लागंज । रामकली स्टेडियम में खेली जा रही मां ज्वालादेवी पचास हजार कैशमनी क्रिकेट प्रतियोगिता के छटें दिन आरटीएसई क्लब और आईसीसी के बीच मैच खेला गया। जाइसासा अ जाय नय खुला गया। जिसमें आईसीसी ने एक विकेट से मैच जीत कर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। सोमवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए आरटीएसई के ल्लेबाजों ने 28.2 ओवर में सभी विकेट गंवा कर 149 रन बनाये। जिसमें युवराज ने 31 और दिव्यांशु ने 31 रन बनाये। सुंदरम् और मृदुल ने तीनतीन विकेट लिया। जवाब में उतरे आईसीसी ावकट (लथा। जवाब म उत्तर आइसासा कलव के खिलाड़ियों ने 9 विकेट गंवा कर लक्ष्य ह्यसिल कर लिया। जिसमें आदर्श 57 व अमन ने 30 रन बनाये। शाश्वत ने 6 विकेट लिया। मुदुल को मैन आफ द मैच घोषित किया गया। इस मन आर्फ ६ मच वावित किया गया। दौरान अजय त्रिवेदी, विजय कुमार, परवेज अहमद, राजेश भारती, रोहित सिंह, विशाल आदि थे।

स्वास्थ्य विभाग ने की कोविड जांच

शुक्लागंज । सोमवार को स्वास्थ्य महकमें ने नगर में कोरोना संक्रमितों की पहचान को लेकर आरटीपीसीआर और पृंटीजन से कोविड जांच की। इस दौरान 20 लोग एंटीजन टेस्ट में स्वस्थ मिले। सोमवार को पीएचसी में ओपीडी के दौरान खांसी, बुखार, जुकाम के मरीजों के बीच कोविड जांच की गई। एलए क बांच काविड जांच का गई। एलए अमित कुशवाहा ने 20 लोगों की एंटीजन जांच की। जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं मिला। इसके अलावा 54 लोगों का आरटीपीसीआर सैम्पल कोविद जांच के लिए भेजा गया वहीं 11 मरीजों को मेडिकल किट भी

पुरानी खुन्न्स में युवकों का फोड़ा सिर, दो पर मामला दर्ज

शुक्लागंज (एसएनबी)। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कंचन नगर इलाके में पुरानी खुन्तस में दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें एक पक्ष ने दो युवको को बंधक बनाकर लाटी इंडों से जमकर पीटा। पुलिस ने इस मामले में मिली तहरीर के आधार पर न इस मामेश में मिशा (पहरार के आवार पर दो लोगों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

कंचन नगर में रहने वाला मनीष निषाद बीते रविवार की रात अपने साथी दीपक बात राववार का रात अपन साथा दापक गौतम के साथ घर की तरफ ना रहा था। रास्त में हो मंशा खेड़ा का रहने वाला समीर उर्फ लुक्का और भोला उर्फ ज्ञानू मिल गया। मनीष का आरोप था कि पुरानी बातों को लेकर समीर व उसका साथी गाली गुल्लैज करने लगा। जब द्रम्य बात का उसने विशेष जताया तब दोनों लोगों ने तमंचे के बल पर जबरियां बाइक में बैठाया और एक कमरे में ले जाकर लाठी डंडों से पीटा। मारपीट के दौरान मनीष व दीपक का सिर फट गया। इस

मामले में मनीष और दीपक की तहरीर पर



मारपीट में घायल युवक।

धाराओं में मामला दर्ज किया है।

गांजा के साथ युवक गिरफ्तार शुक्लागंज । सोमवार को बालूघाट चौकी प्रभारी रोहित पांडेय ने मुखबिर की जानकारी पर पोनी रोड अवस्थी फार्म हाउस के पास से पर पोना राड अपस्था काम हाउस के पास स गांधी नगर निवासी हर्ष श्रीवास्तव को पकड़ा। जिसके पास तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया है। पकड़े गये आरोपित को एनडीपीएस की

झारखंड पुलिस ने नगर से

साथी संग पकड़ा मोस्ट वांटेड

मुख्य मार्गी में भवन निर्माण सामग्री एकत्र होने से राहगीरों को दिक्कत

घाटमपुर। कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में चल रहे भवन निर्माण कार्य की निर्माण सामग्री गिट्टी, मौरंग, ईट आदि सामग्री कस्बे की मुख्य गलियों में भवन स्वामियों द्वारा इकड़ा करने से निकलने वाले राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दबंग भवन स्वामी जबरन मार्गो में भवन निर्माण सामग्री एकत्र कर सङ्क के दोनों छोरों पर बल्लिया बांध देते हैं। जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। पैदल यात्री तक नहीं निकल पाते हैं। लोगों को दूर दूसरी गिलयों में चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। वहीं बाहरी एवं रिश्तेदारी में आए लोग जो पहा बाहरा एवं गरसपुर में आप राजा आ गिलियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। उन्हें खामखां तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों एवं वृद्धों को ले जा रहे लोग भी परेशान होते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्यवाही न होने के चलते दवंग जहां अपने पालतू गाय, भैस व अन्य जानवर सङ्कों पर बांधकर यातायात मार्ग अवरुद्ध कर देते है। वही भवन निर्माण से लेकर अन्य सामान भी मख्य मार्गो पर हाल कर रास्त्रों को साधित किया जा रहा है।

डेढ़ माह बाद खुले स्कूल, सहपाठियों से मिलकर खिले चेहरे





स्कूल खुलने पर खुशहाली का इजहार करते बच्चे व कक्षा में बँठे विद्यार्थी। शुक्लाग्ंज (एसएनबी)। कोविड शुक्तागज (एसएनबा)। कावड संक्रमण के चलते कथा एक से लेकर कथा आठ तक पढ़ने वाले क्चों की पढ़ाई शासन के निर्देश पर दिसंबर माह के अंतिम दिवस में बंद कर दी गई। कोरोना संक्रमण का ग्राफ घटने के बाद शासन ने फिर से जनियर सोमवार को नगर के विद्यालय खुले। जिसमें पढ़ने वाले बच्चे अपने सहपाठियों से

मिलकर खुशी से फूले नहीं समाएं। बीते 31 दिसंबर को शासन के निर्देश पर कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ के बच्चों की आफ़ लाइन पढ़ाई कोविड संक्रमण के चलते बंद कर दी गई। डेढ माह से बच्चे घरों वेदात वर्ष कार पा निश्च कि महत्त वच्य वर्ष में ही ऑन लाइन पढ़ाई करते रहे। सोमवार को शासन के निर्देश पर नगर के सभी स्कूलो में पूर्व की भांति शिक्षण कार्य शुरू किया गया। नगर स्थित शिवम कान्वेंट. अंबिका प्रसाद मेमोरियल पव्लिक स्कुल,

फोटो : एसएनबी दयानंद स्परस्वती इंटर कालेज हा लोहिया द्यानंद सरस्वता इटर कालज, डा. लाहिया, ब्राइट कैरियर, डीएसएम पब्लिक स्कूल, बचपन प्ले ग्रुप, प्रभा कान्वेंट, शिवांश कान्वेंट, पूर्णिमा इंटर कालेज समेत् अन्य स्कलों में कक्षा एक से कक्षा आठ के बच्चे स्कूली परिवेश में विद्यालय पहुंचे। पहले दिन हुई पढ़ाई के बाद जब छुट्टी हुई तब स्कूली बच्चों ने अपने सहपाठियों के साथ स्कुल खुलने पर खुशी जताते हुए जमकर

परिवर्तन मोर्चा रैली में किये वादे

🔳 सहारा न्यूज ब्यूरो . शक्लागंज।

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के सर्वोदय नगर गंगायाट कार्यसारा कर के स्वादित गार्स इलाके में एक मोबाइल कम्मनी का टॉवर लगाये जाने को लेकर इलाकाई लोग भड़क गये। उन्होंने भवन स्वामी को बस्ती के बीच टॉवर न लगाये जाने की बात कही लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया। जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत गंगाघाट

कोतवाली पुलिस से की। सोमवार को सर्वोदय नगर इलाके में एक मकान में मोबाइल टॉवर लगाने का काम शुरू किया गया। जिसको देखकर क्षेत्र में रहने वाले अनिल चौरसिया, दिलीप शर्मा, माया दुलारी, राजरानी, रवि, संजय, सुनील, शशांक, महेश, अमित, जगपाल, राहुल समेत दो दर्जन लोग भवन स्वामी के पास पहुंचे। दो देवन लोग नयन स्वामा के पास पहुंचा क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि टॉवर लगाने के लिए किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने की बात कही गई। जिसके बाद भी भवन स्वामी न कार्य नहीं रोका। इस बाबत क्षेत्रीय लोगों ने गंगाघाट पुलिस से टॉवर निर्माण कार्य रोके जाने की मांग की है।

टॉवर लगाने का क्षेत्रीय लोगों ने जताया विरोध

घाटमपुर (एसएनबी)। कस्वे के मूसानगर रोड स्थित कैप्टन सुखवासी सिंह जनता महाविद्यालय में सोमवार अपराह्न भागीदारी परिवर्तन

मोर्चा (जन अधिकार एआईएमआईएम पार्टी) की रैली पाटा) का रेला आयोजित की गई जिसमें हेलीकॉप्टर से पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने मतदाताओं से आगामी 20 फरवरी को ज्यादा

से ज्यादा मताधिकार जन अधिकार पार्टी के

पक्ष में करने का आह्वान किया। उन्होंने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जन अधिकार पार्टी की घाटमपुर विधानसभा आनुनार नाटा स्व वाटनुर विस्तारिक प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की उपील की। अपने संबोधन में उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी शासन में हिस्सेदारी की बात कहते हुए बताया कि उनकी पार्टी 310 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया पार्टी भारी बहुमत से जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी जिसमें



जन अधिकार रैली को संबोधित करते बाबू सिंह कुशवाहा।

युवाओं को रोजगार किसानों को बीज, खाद किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा परे प्रदेश की जनता का प्यार औ कहा पूर प्रदश का जनता का प्यार आ विश्वास मिल रहा है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी हमारे प्रत्याशी है पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं।

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

शुक्लागंज (एसएनबी)। सोमवार की मध्य रात को झारखंड एसटीएफ ने शुक्लागंज फोरलेन किनारे बने एक मकान में छापेमारी की। जिससे मकान में रहने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान

एसटीएफ ने एक शांतिर अपराधी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार

किया। जिसको गैर राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए साथ ले गई। कंचन नगर मोड़ के पास एक मकान में रात करीब दो बजे

गये। पुलिस ने मकान में तीन साल से किराये पर रह रहे एक आरोड़ा नाम के किरायेदार के साथ रह रहा युवक पकड़ा गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झारखंड पुलिस

ने बताया कि नगर में रह रहें यवक का साथी आरखंड का मोस्ट वांटेड

अपराधी है। जो नकली होटों की जालमाजी में मंलिप्त रहा। उसके

जनरावा है। जा नकरा नाटा का जारासाजा में सारापा रहा। उसका पकड़ने के लिए चार राज्यों में तलाश के बाद शुक्लागंज में सफलता मिली। इस बारे में कोतवाली प्रभारी जेबी पांडेय ने गैर राज्य की पुलिस

द्वारा छापेमारी किये जाने से इंकार किया है।

चार राज्यों में

ढूंढते हुए नगर में मिली

सफलता

क भास एक मकान म रात कराब दा बज झारखंड राज्य की पुलिस ने छापेमारी की। रात के समय सादी वर्दी में एक दर्जन से आधिक लोगों के घुसते के बाद अन्य किरायेदारों की भी नींद टूट गई। जो माजरा समझने के लिए अपने कमरों से बाहर आ

हसनगंज(उन्नाव)(एसएनबी)। कोतवाली क्षेत्र के कस्वा मोहान हस्तानाज्ञ (जनाव्य) (एस्स्यावा) न कारावाला वात्र के करूवा नाहान के अक्तवरी गेट निवासी सुर्वेव (32) पुत्र मियां वक्स सदुल्ला नगर से घर वापस लीट रहे वे कि तभी कोतवाली क्षेत्र के सेखुपुर के सामने बाइक में सामने से पिकअप ने टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर बाइक भ सामन सा प्रकारण न दक्कर मार दा। गरास उसका माक स्प इंग्री मीत हो में हैं। प्रकारी की सूचना पर हुर्ची पुलिस ने मुक्त का पहचान कर स्वजनों को सूचना दी। मौके पर पहुँचे स्वजन व करबेवासियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्च जितेन्द्र सारव व चेवरामी ह वारा रास्ता मौके पर पहुँचकर समझाने पर स्वजन घटनास्थल से शय को पुलिस को उठाने दिया। विसमर आधा घंटे बाद घटनास्थल से शेव को पुलिस को ठीनो दिया। जिस्सर आधा घट बाद जाम खुल सका। मुक्त 5 भाइमी में हुई में बंद था। मुक्त के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश पाठक ने बताया फिकज्य को टेक्कर से युक्क को भी हुई हैं। पिकज्य को कोक्स में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ने दम तोड़ा मियांगंज(उन्नाव)। आसीवन थाना क्षेत्र अंतर्गत मियांगंज ामधार्गा (उम्माव)। जासांच्य मार्गा कुन अरात । चकलवंशी मार्ग पर डाता वाहन बी टक्कर से गोर्प पराई में शामिल होने आए बाहक सवार युवक की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के मिथांगंज चकलवंशी मार्ग पर के समीप असरेंद्रा गांव में गोद भराई में शामिल होने आए माखी थाना क्षेत्र के हरीगढ़ी गांव निवासी सतीश कुमार पुत्र हान आए माखा थाना कर क हरागण गाय निपासी स्वासी सुनार पुन बाबूलाल (32) को किसी अज्ञात वाहन ने जीरतर टक्कर मार दें, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने पकड़ा 45000 का जुआ, 5 गिरफ्तार शुक्लागंज । गंगायट कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सुचना पाकर रविवार की शाम जाजमऊ चौकी क्षेत्र के बदुवा खेड़ा गाँव में पांच

पकड़ा। जिनके पास से पुलिस ने 45000 हजार बरामद की।



आरोपितों पर 13 जी के तहत कार्रवाई की गई। कोतवाली प्रभारी जेबी पांडेय को रविवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि जाजमऊ चौकी क्षेत्र में बुक लगाई जा रही है। जिसपर चौकी प्रभारी अनुपम भदौरिया

सरकारी फरमान बेअसर, नहीं हुयी जानवर बंदी

🔳 सहारा न्यूज ब्यूरो -बिल्हौर/कानपुर।

छुट्टा गौवंश को अस्थायी गौशाला बना कर उनके अंदर बन्द करने का मुख्य सचिव का आदेश और मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता का ब्लॉककर्मियों पर कोई असर नहीं है। हर गांव सभा में अस्थायी गौशाला बना कर गोवंश बन्द करने का इससे बड़ा मजाक क्या बनेगा कि केवल 9 ग्राम सभाओं में ये बनाई गई है। 4 खाली पड़ी है, और नानामऊ को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 में कुल 74 गोवंश बन्द कर सरकारी आदेश की रस्म अदायगी हो गयी है। तहसील और विधानसभा के किसी कोने में आर विचानसभा के किसी कान म जाइये या एनएच 91 पर कार से चलिए गोवंश के झुंड आपको हर जगह टहलते और किसानों की फसल रौदते मिल जाएंगे। किसान दुखी हैं और सरकारी कर्मी 20 की वोटिंग हो जाने का इंतजार

कर रह है। मदाराराय गुमान में बल्ली से घेर बनाये गए गौशाला में कुल 14 पशु है। बरौली में 10 है। अनेई में पूर्व प्रधान

द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन खाली कराने में प्रधान विकास बाजपेयी जुटे हैं। यहां बनी गौशाला में 40पशु है। बिर्रा खानपुर में गौशाला बनी 10 जानवर पकड़े गए, फिर सचिव ने अपनी दूसरी ग्राम सभा नसिरापुर में उन्हें शिफ्ट कर दिया। देवीपुर सराय में बन गयी, लेकिन

'9 अस्थायी गौशाला कुल 176 गौवंश

'मजाक बना मुख्य सचिव का आदेश

चल नहीं रही। इलियासपर में बन गयी लेकिन सचिव ने अपनी दूसरी ग्राम सभा पलिया बुजुर्ग में ही जानवर बन्द करने का आदेश कर दिया। शामपुर कोट में बन गयी लेकिन चल नहीं रही। अंकिन में प्रधान राम आसरे कुशवाहा ने 10 वर बन्द कराए।

है। पुराने भवन की बाउंड्री वाल ठीक करा गेट लगवा. नादें रखवाई और भसा करा गट लागा, गाँद रखनाइ जार मूला चारा भी। दिक्कतें इनके सामने भी हैं,16 सौ रु क्विंटल का भूसा वह भी कन्नौज से खरीदकर ला रहे हैं। 20 दिन में 70 हजार रु खर्च कर चुके है। कब ब्लॉक के कागज के घोड़े दौड़ेंगे और पैसा मिलेगा, राम जाने। लेकिन हौसले में ानलगा, राम जान। लोकन हॉसले में कोई कमी नहीं।' चुनावों ने किया जिंदा : राजनीतिक दलों ने कभी इस मद्दे को

मख्यमंत्री की इस टॉप प्राथमिकता को

मुख्यमंत्रा का इस टाप प्राचामकता का लागू कराने के लिए ब्लॉक तहसील के लोगों से कोई प्रयास नहीं किये। वहीं किंुसानों के दर्द पर दिन रात आंसू बहाने

और धमाचौकडी मचाने वाला विपेक्ष भी

गूंगा बना रहा। अब चुनाव जब नजदीक है तो प्रत्याशी गर्म मुद्दे को हवा देने में लगे

है। 10 मार्च को पता चलेगा कि किसान का मूड क्या रहता है,और ऊँट किस करवट बैठेगा।

-को प्राथमिक उपचार के बाद जिल

राजनीतिक दलों ने कभी इस मुद्दे को संजीदगी से लिया ही नहीं। सरकार के अादेशों के बावजूद भाजपा विधायक सागर (जो अब सपा में है), सांसद अशोक रावत और संगठन के लोगों ने

'नानामऊ सन सकता आदर्श': गंगा किनारे नानामऊ छोटी सी ग्राम सभा है। प्रधान गुलाव सिंह योगी भक्त भी है,और गाय को गोमाता मानते

आनंदेश्वर मंदिर में हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार **शुक्लागंज (एसएनबी)**। सोमवार को प्रदोष तिथि होने के कारण नगर के शिव

शुक्तमांत्र (एसप्पन्ति)। वीमावार को प्रदीप तिथि होने के कारण नगर के दिव मंदिरों में बात्र के इसने के लिए अद्वारणों को चीड़ लगा दिवा बाल्याट दिवार आनंदेश्वर मंदिर में अद्वारणों ने स्टार्मियक के साथ बात्र का भव्य शृंगार कराया। इस दौरान भवन कीर्न के साथ प्रसाद का वितारण किया गया। सोमावार को प्रदेश होने के कारण आनरेश्वर मंदिर में दिवार भवतों ने भोलेनाक को प्रसान करने के लिए विशे वियान से पूजा अर्थन की। मकतों ने दूप, दही, गोमावाल, शहर थूं। अरकट, वेल्या, बुक्ता आदि से बाला का अर्थन्य किया का अर्थन्त किया। दौरान विभिन्न फूलों से बाला का भव्य श्रेगार कराया गया। शाम के समस् मंदिर में महिलाओं ने दिवा आरापना के साथ कीर्तान कर प्रसाद वितरण किया। इसी तरह राजवार्ग सिक्त श्री दुर्गा मंदिर में भी बाला के जलाभिक्त के लिए भवती की भोड़ लगी रही। गायवी शक्तिगंत में माकालपेश्वर मंदिर में भी भक्तों ने बाला कुंगार कराने के साथ पजन किया।

🐠 ईमा इंडिया लिमिटेड

करणी ।

करणी के का बरावी ने से बरावा देने कर बरावा चेती हुए नहीं किया है, पान्ते अनुकोश है कि ये दियोजिन्दी में के का बरावा ने का बरावा न

www.worling.nodi.com पर पा पापस है। प्रकार की पिकृत का पुरिक्र पा पापस है। की कि दिनांत में कर के किया और पापसी परिक्र के लिए हैं की किया की पापस के स्थान के स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की प्रकार की स्थान की प्रकार की स्थान की प्रकार की प्

नवाबगंज (उन्नाव)। लखनक कानपुर हाईवे पर जगदीश गांव की मोड़ के कानपुर हाइव पर जगदाश गाव का माइ क समीप बाइक सवार युक्क व युवती को एक तेज रफार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा युक्क गंभीर रूप से घायल हो गया। सूमना पर पहुंची पीआरवी पुलिस सीएचसी पहुंचाया। शव का पंचनामा भरने के बाद शव को पीएम के लिए भेजा है।

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की मोड़ के समीप सोमवार को

सचना पर दोनों के परिजन सीएचसी पहुंचे। स्वना पर दोनों के परिवन संप्रियमी पहुंचे । मुक्ता की मों ने बेटी का वन देख गा मा खाकर िए गई और बेदोा का शा है होश में अगे पर यह इकरतीता बेटो की मीत से बेसुप हो गई। मुक्ता के भाई ने बातावा कि श्रेया लखनऊ के एक कोचिंग संदर्श थी। उसने फोन से बतावा था कि नह कस से बेटकर पर के लिए निकल चुका है। प्रायल कुनत्वीप ने बतावा की नेश्य उसकी

ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए हो सकती है अधिक लाभदायक कानपुर (एसएनबी)। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसान अन्य फसलों के मुकाबले कहीं अधिक लाभ हासिल कर सकते हैं। अधिक लाभ के लिए

ड्रैगन फ्रूट के साथ अंतः फसली खेती भी किसान , कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक बार लगाने से 20 से

25 वर्षों तक फल देता रहता है। पौधों को सीएसए कृषि विवि ने टिशू कल्चर से विकसित किये लगाने के बाद इससे तीसरे वर्ष से 20 से 22 ड्रैगन फ्रूट के पौधे किसान अग्रिम मांग लाख प्रति एकड् कर हासिल कर संभावित है। सकते हैं विवि से ए . स्वीएस्वाए रोग रहित पौधे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि

ने किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती वास्ते प्रोत्साहित करने को टिशू कल्चर प्रयोगशाला में इसके पौध टिशू कल्चर विधि द्वारा तैयार किये गये हैं। टिशू कल्चर द्वारा तैयार पौधे बीमारी रहित होते हैं। टिश्र्ँ कल्चर प्रयोगशाला प्रभारी डॉ.आरपी व्यास ने बताया कि इच्छुक किसान ड्रैगन फ्रूट के पौधों की मांग अग्रिम कर सकते हैं, क्योंकि पौधे मांग के



ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए हो सकती है अधिक लाभदायक।

अनुसार ही प्रयोगशाला में तैयार किये जाते हैं। अनुसार हा प्रयागशाला में तथार किये जात है। डॉ.व्यास ने बताया कि ड्रैगन फूट की खेती महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, पं.वंगाल एवं उत्तरप्रदेश में आरंभ हो चुकी है। लेकिन इसके 80 प्रतिशत से ज्यादा फलों का आयात वियतनाम व अन्य देशों से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पौध रोपण का उचित समय फरवरी से अक्टूबर तक होता है। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए है काफी मददगार : ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक होते हैं। इसमें प्रोटीन,

फैट, क्रूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिंस जैसे कई पोषकीय तत्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। विवि के सहायक निदेशक शोध डॉ.मनोज मिश्र ने बताया कि डैगन फट डायबिटीज. ह्या माना क्रान प्रताया कहान फुट हायावटान, इस्य रोग, कैंसर, कोलेल्ट्रोल सिवाग, पेट संबंधी समस्याओं, गठिया, डेंगू, हाईड्यों एवं दांतों के लिए लाभकारी होता हैं। यह बीटा लाईस, पॉलिफिलॉल्स और एस्कोरिकक एसिड जैसे प्रभावी एंटी ओक्सोइंट से युक्त होता हैं, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती हैं।

बाइक सवार युगल को ट्रक ने मारी टक्कर, युवती की मौत

ने प्राइवेट कार की मदद से दोनों को

लखनऊ कानपुर हाईवे पर बाइक सवार सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा बाईपास निवासी कुलवीप सिंह (23) पुत्र राम बहादुर सिंह व श्रेया कश्यप(19) पुत्री पहिंचुर सिंह च अजा पारिवर्ग () ने नुजा सुशील कश्यप को कानपुर रजिस्ट्रेशन के एक तेज रपतार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक सवार हाईवे पर जा गिरे, जिसमे श्रेया की मौके पर ही मौत हो गई तथा कलदीप गम्भीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस ने प्राइवेट कार से मदद लेकर दोनों को सीएचसी पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने घायल दोस्त है वह नवाबगंज किसी काम से आया हुआ था। तो श्रेया से बात हुई और वह बस से उतर गई। हम दोनों बाइक पर सवार हो उन्नाव के लिए निकले थे इसी बीच एक तेज रपतार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। कुलदीप के भाई प्रियांश् ने बताया कि वह मूल रूप से माखी थाना क्षेत्र के विरसिंघपुर गांव के रहने वाले हैं वर्तमानु में नवर गदनखेड़ा उन्नाव में रह रहे हैं। सीएचसी पहुंचे अजगैन प्रभारी पवन कुमार सोनकर व चौकी इंचार्ज अमित सिंह ने शव को पीएम के लिए भिजवाया।